


नोट-
1. कार्यलय में उपलब्ध कम्प्यूटरीस को जॉइन्ट विकास योजना में अंकित कर दिया गया है यदि कोई कम्प्यूटरीस जुटिसन अंकित होने से रद्द रूप है तो उपरोक्त कम्प्यूटरीस मानते हुए अंकित कार्यवाही की जाएगी।
2. नगरपालिका नदी नदी आदि का जीविकोपार्जन विकास एवं नगरपालिका विकास के अनुसार ही किया होगा।
3. जॉइन्ट विकास योजना के क्षेत्र में जो रही एच.टी. लाइन से विद्यमान नगरपालिका विकास दूरी छोड़ी जाएगी।
4. यह जॉइन्ट विकास योजना कम्प्यूटरीस पूर्व में जारी मास्टर विकास योजना 2031 का भाग माना जाएगा।
5. जॉइन्ट विकास प्लान 1954/2004 में मानकीकृत उपलब्ध नगरपालिका विकास प्लान विनियमों को भी मिलाया जाएगा।
6. जॉइन्ट विकास योजना में अंतरावर्ती अनुसूचित मास्टर प्लान 2031 में प्रस्तावित सड़कों के अंकित नगरपालिका क्षेत्र से सड़कों के प्रस्तावित रूप में है।
7. जॉइन्ट विकास योजना में प्रस्तावित 24 मीटर व अधिक सड़कों के सड़कें सड़क की चौड़ाई की 1.5 गुणा या अधिक नगरपालिका की गहराई तक (जो भी कम हो) निश्चित उपयोजना (समावेश, वाणिज्यिक, संस्थापक व राजकीय) अनुसूचित होगी।
8. जॉइन्ट नदी के सड़कें दोनों ओर सड़कें सीमा के पश्चात 30 मीटर की कुलारेण पट्टी एवं उसके बाद 18 मीटर चौड़ी सड़क का प्रस्तावित रखा गया है।
9. जॉइन्ट सड़कें नदी, सड़कें नदी आदि के सड़कें सड़कें सीमा के पश्चात 9 मीटर की कुलारेण पट्टी का प्रस्तावित रखा गया है।
10. जॉइन्ट सड़कें नदी, सड़कें नदी आदि के सड़कें सड़कें सीमा के पश्चात 9 मीटर की कुलारेण पट्टी का प्रस्तावित रखा गया है।



Key Map

LEGEND सांकेतिक

LANDUSE भू उपयोग
AS PER PROPOSED MASTER PLAN

RESIDENTIAL आवासीय
R-1: Residential
R-2: Residential
R-3: Residential

COMMERCIAL वाणिज्यिक
C-1: Commercial
C-2: Commercial
C-3: Commercial

WAREHOUSING AND GODOWNS
W-1: Warehouse and Godowns

RECREATIONAL आनंद - प्रमोद
R-4: Open Space Play Ground & Stadium

MIXED USE मिश्रित उपयोग
M-1: Mixed Use

TOURIST FACILITIES पर्यटन सुविधाएं
T-1: Tourist Facilities

INDUSTRIAL औद्योगिक
I-1: Industries
I-2: Industries

GOVERNMENTAL राजकीय
G-1: Government/semi-Government Offices
G-2: Government Reserved
G-3: Bridge

PUBLIC AND SEMI-PUBLIC सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक
P-1: Senior Secondary School
P-2: College/Professional College/University
P-3: General Hospital/Veterinary Hospital
P-4: Religious/Historical/Social/Cultural
P-5: Public Utilities (Community Toilet)
P-6: Drinking Water Kiosk
P-7: Other Community Facilities
P-8: Crematorium & Burial Ground

CIRCULATION परिवहन
C-1: Existing Roads
C-2: Proposed Road
C-3: Bus Stand Transport Nagar
C-4: Railway Line
C-5: Railway Station
C-6: HT Line (11/22/33/66 KV)
C-7: Hill/Hillock

WATER BODIES जल निकाय
W-1: River/Stream
W-2: Lake/Pond
W-3: Well

BOUNDARIES सीमाएं
B-1: Zone Boundary
B-2: Village Boundary
B-3: Special Area-2

PROPOSED PLAN
P-1: Army Area
P-2: Buffer Boundary
P-3: Zonal Level Community Facilities

Zonal Development Plan 2031

Zonal Development Plan 2031
North Zone N1, N2 (Part-2)

Consultants:
YCSPL Yashi Consulting Services Pvt. Ltd., Jaipur
501-510, 5th Floor, Kailash Tower, Lal Kothi
Tonk Road, Jaipur, Rajasthan 302015

NOTE:- THIS MAP BEARS APPROVAL OF JODHPUR DEVELOPMENT AUTHORITY Dated 2-NOV-2021

1:12,000

0 0.225 0.45 0.9 1.35 1.8 Kilometers

N

Assistant Town Planner	Deputy Town Planner	Executive Engineer	Deputy Commissioner	Director (Planning)	Secretary	Commissioner	Chairman
------------------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------	-----------	--------------	----------